

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी-
 पुस्त में उस मशीन द्वारा 100 (एक सौ)
 पृष्ठ हैं, जो कि सहायक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अदर,
 प्रमंशु, सिंधिया के नाब से निर्गत
 किया गया है,।

19/12/12
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्र० रोमडा
 अनाथ

Sch. XLV—Form No. 134

Rosera DIVISION
Singhia SUB-DIVISION

Measurement Book

No. — 1235
 - 1236

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Name of road - To 2 Basopatti

Under A.D.R

Authority - Executive

Engineer R.W.D

Work Div. ROSEES

Agency: -

Date of measurement -

Record entry

① Supplying filling
brick bats and
compacting its
manually do.
do - all - com - job

$$1 \times 30 \times 3.75 \times 1.75 = 196.88 \text{ m}^3$$

$$1 \times 8 \times 25 \times 1 \times 0.225 = 45.00 \text{ m}^3$$

$$5 \times 5 \times 2 \times 0.250 = 12.50 \text{ m}^3$$

$$5 \times 10 \times 1 \times 0.225 = 11.25 \text{ m}^3$$

$$12 \times 6.25 \times 1 \times 0.30 = 22.50 \text{ m}^3$$

$$6 \times 6.25 \times 2 \times 0.15 = 11.25 \text{ m}^3$$

$$6 \times 18 \times 0.75 \times 0.20 = 16.20 \text{ m}^3$$

$$1 \times 8 \times 9 \times 0.75 \times 0.15 = 8.10 \text{ m}^3$$

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	16	4.50	0.75	0.25	$= 13.50 \text{ m}^3$
	6	15	0.60	0.30	$= 16.20 \text{ m}^3$
	2	7.50	1.20	0.25	$= 4.50 \text{ m}^3$
	4	7.50	1.20	0.125	$= 4.50 \text{ m}^3$
	16	3.75	0.60	0.150	$= 5.40 \text{ m}^3$
A >	8	5	1.50	0.25	$= 15.00 \text{ m}^3$
	5	5	1.50	0.10	$= 3.75 \text{ m}^3$
	5	10	0.75	0.20	$= 7.50 \text{ m}^3$
	20	2.50	0.75	0.25	$= 9.38 \text{ m}^3$
	20	1.25	0.75	0.5	$= 2.81 \text{ m}^3$
	30	1.25	0.50	0.10	$= 1.88 \text{ m}^3$
					$= 408.09 \text{ m}^3$
	26/10/21				26/10/21 45

Continuation